

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2010—चैत्र 26, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 506-एस.सी.-1-वा.वि.-नं.प.-सुवासरा-2010.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 345 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 की शक्तियों, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 509 भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2007 द्वारा जिला कलेक्टरों को उनके क्षेत्राधिकार के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित की गई है. कलेक्टर, जिला मन्दसौर द्वारा आदेश क्रमांक 1294, 1265/डुडो/2009, दिनांक 16-12-2009 द्वारा ग्राम पंचायत सुवासरा को 23-10-2009 से विघटित किया गया है.

राज्य शासन द्वारा प्रत्यायोजित की गई धारा 29(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. जी. के. सारस्वत, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, ग्राम पंचायत सुवासरा की पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अ.सू.क्रं. 25-एफ क्रमांक 1-39/98/18 भोपाल, दिनांक 23-10-2009 द्वारा अधिनियम की धारा 5(ख) के अन्तर्गत मन्दसौर जिले की ग्राम पंचायत सुवासरा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत सुवासरा अधिसूचना किया होने से नीचे दी गई सारणी के कॉलम दो में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत सुवासरा, जिला मन्दसौर के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानीय कॉलम नं. तीन में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों को अवधारित करता हूँ.

वार्ड का क्रमांक व वार्डों के नाम

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
1	श्रीराम वार्ड
2	कालेश्वर वार्ड
3	मारूती वार्ड
4	कुतबी वार्ड
5	सुभाष वार्ड
6	रामदेव वार्ड
7	वाल्मिक वार्ड
8	महात्मा गांधी वार्ड
9	महावीर वार्ड
10	टोडरमल वार्ड
11	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
12	भगतसिंह वार्ड
13	अम्बेडकर वार्ड
14	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएं एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 1—श्रीराम वार्ड की चतुर्थ सीमा

उत्तर—शासकीय भूमि व बाड़े

पूर्व—वार्ड क्रमांक 1 की सीमा

दक्षिण—(1) देवरिया विजय जाने का कच्चा रास्ता
(2) कृषि भूमियां

पश्चिम—देवरिया विजय जाने का गाड़ीगड़ार रास्ता

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	मोहल्ला (2)	मकान नम्बर से मकान नम्बर (3)
1	रईसाबाई के मकान से जोरावरसिंह के मकान तक	1 से 7 तक
2	रमेश के मकान से बापूसिंह जी के मकान तक	8 से 11 तक
3	कचरूसिंह जी के मकान से दुलेसिंह जी के मकान तक	15 से 19 तक
4	मोहन महाराज के मकान से फतेहलाल के मकान को लेते हुए भागूबाई पुरालालजी के मकान तक.	20 से 135 तक

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कुतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएँ एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 02 - कालेश्वर वार्ड

उत्तर :- कृषि भूमियाँ

पूर्व :- (1) गंगधर रोड़ (2) मेला ग्राउण्ड

दक्षिण :- देवरिया विजय जाने का रास्ता (गडार)

पश्चिम :- वार्ड क्रं. 1 की सीमा

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	कारुलाल नाथूलालजी के मकान से नूरमोहम्मद के मकान को लेते हुए एवं समस्त बागरी मोहल्ले को लेते हुए स्कूल के सामने नई आबादी भेरू गीरी के मकान तक।	136 से 227 तक
2.	रेल्वे कालोनी - प्रकाशचन्द्र के मकान से रेल्वे कालोनी सम्पूर्ण लेते हुए पुराना बस स्टेण्ड सुवासरा तक ओमप्रकाश रामविलास के मकान तक	228 से 270 तक

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कुतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएँ एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 03 - मारुती वार्ड

उत्तर :- (1) आरामशीन (2) गुराड़िया प्रताप ग्राम की सीमा

पूर्व :- (1) मीणा मोहल्ला (2) बोहरा मस्जिद

दक्षिण :- वार्ड क्रं. 8 की सीमा

पश्चिम :- मन्दसौर रोड़

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	पुराना बस स्टेण्ड - राधेश्याम काला के मकान से मोहनलाल तम्बोली के मकान तक	271 से 287 तक
2.	मारुती नगर - राधेश्याम मालवीय के मकान के फकीरचन्द्रजी काशीराम के मकान से होते हुये शिवनारायण जी काला के मकान तक।	287 से 314 तक
3.	बुरहानी काम्पलेक्स - लक्ष्मीनारायण मदनलाल के मकान से राधेश्याम सोनी के मकान से होते हुए फुलचन्द्र भंवरलाल पाटीदार के मकान तक।	318 से 356 तक

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कुतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएं एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-
वार्ड क्रमांक 04 - कुतबी वार्ड

उत्तर :- मीणा मोहल्ला
पूर्व :- बोहरा बाखल वार्ड 5 की सीमा
दक्षिण :- तहसील रोड़ 2 वार्ड 8 की सीमा
पश्चिम :- जिनींग फेक्ट्री 2 वार्ड 3 की सीमा
इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्र.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	बोहरा बाखल-तहसील रोड़ जैनुद्दीन जीनवाला के मकान से हकीमउद्दीन चौधरी के मकान से होते हुए जमात खाने के पास आबादी भाई के मकान तक।	357 से 380 तक
2.	शब्बीर हुसैन मु.सारीक अली के मकान से अब्बास भाई के मकान तक सैफिया स्कूल के सामने।	381 से 392 तक
3.	बदरुद्दीन के मकान से कुतबी मोहल्ला से होते हुए शब्बीर हुसैनजी के मकान से होते हुए अकबर भाई के मकान तक।	394 से 408 तक
4.	सैफुद्दीन के मकान से बाकीरभाई के मकान से होते हुए ताहेर भाई के मकान तक।	406 से 418 तक
5.	अलीहुसैन के मकान से शेख गुसुफ अली जी के मकान तक।	420 से 430 तक
6.	मु. ताहेर अली के मकान से सैफुद्दीन जी के मकान तक तहसील रोड़	431 से 451 तक

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कुतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएं एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-
वार्ड क्रमांक 05 - सुभाष वार्ड

उत्तर :- गफूर कालोनी, बंजारा मोहल्ला
पूर्व :- रूनीजा रोड़ 2 तहसीलदार का बंगला
दक्षिण :- तहसील रोड़ 2 वार्ड 8 की सीमा
पश्चिम :- वार्ड क्र. 4 की सीमा
इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्र.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	इकबाल भाई के मकान से क.शाला होते हुए बंशीलाल प्रधान के मकान तक	452 से 497 तक
2.	सुरेशकुमार महाजन के मकान से पार्वतीबाई रामफुल के मकान से होते हुवे मोहनसिंह कालिया के मकान तक।	498 से 540 तक
3.	बंशीलाल जी नाई के मकान से लक्ष्मणसिंह के मकान तक	540 से 546 तक
4.	कारु किरान के मकान से भेरूलाल जैन के मकान से होते हुए मोहनलाल हिराके मकान तक	548 से 568 तक

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कृतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएँ एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 06 - रामदेव वार्ड

- उत्तर :- 1. बोहरा कब्रस्तान 2. ईट भट्टा
 पूर्व :- वाल्मिक कालोनी
 दक्षिण :- 1. जमातखाना 2. सेफियाहा स्कूल 3. बालागंज मोहल्ला
 पश्चिम :- 1. मारुति नगर 2. बुरहानी काम्पलेक्स

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	बंजारा मो. - कुम्हार मोहल्ला, कालु जस्सा के मकान से गंगाराम के मकान से होते हुये कुम्हार मोहल्ला से रामचन्द्रजी के मकान से होते हुये बंजारा मोहल्ला में दोनों साईड की गली को होते हुये मकबूल भाई शाफी के मकान	569 से 663 तक
2.	भीणा मोहल्ला - मानबाई फेलीजी भीणा के मकान से ताराबाई के मकान से होते हुये मोहनलाल के मकान तक।	664 से 697 तक
3.	तुलसीराम के मकान से लीलाबाई के मकान तक।	697 से 700 तक
4.	बैगमबी के मकान से अम्बाराम के मकान तक।	701 से 761 तक
5.	कलावतीबाई के मकान से शिवनारायण शर्मा के मकान से होते हुए राबीशा के मकान से होते हुए कंचनबाई के मकान तक पिछे गली में।	728 से 761 तक

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कृतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएँ एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 07 - वाल्मिक वार्ड

- उत्तर :- 1. रूनीजा रोड़ 2. वाल्मिक कालोनी 3. गायत्री मंदिर
 पूर्व :- 1. मुस्लिम कब्रस्तान 2. इदगाह 3. कंवरलाल मिस्त्री की कृषि भूमि
 दक्षिण :- 1. रिलायंस टॉवर 2. वार्ड 15 की सीमा
 पश्चिम :- 1. तहसील रोड़, 2. पीरुलाल मांदलिया का मकान, 3. गोल स्कूल, 4. LSSभवन
 5. वार्ड 5 व 8 की सीमा

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	वाल्मीक मोहल्ला - किशोरलाल के मकान से शिवलाल जस्सा के मकान से होते हुए खादीमभाई के मकान से होते हुए छोटुलाल के मकान तक।	762 से 781 तक
2.	बद्री उंदा के मकान से रतन बंजारा के मकान तक।	783 से 793 तक
3.	गायत्री मंदिर से जगनादास बैरागी के मकान से राधेश्याम के मकान होते हुए रामबिलास पाण्डे के मकान तक।	788 से 793 तक
4.	रामगोपाल छात्रावास से राजेन्द्रकुमार छात्रावास रामचन्द्र तहसील में।	793 से 801 तक
5.	तहसील रोड़ रईस भाई स्टेट हाउस गाडोलिया लुहार के रायदिया, देवेन्द्र रामचन्द्र पाण्डेय के मकान तक।	803 से 806 तक
6.	मांगीलाल बाबल्दा वाले के मकान से भवंरलालजी सुतार के मकान से होते हुए तफज्जुल सैफी कोल्डींग के मकान तक।	807 से 838 तक

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कुतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओ की सीमाए एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 08 - महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर :- 1. तहसील रोड़ 2. वार्ड 7 की सीमा
 पूर्व :- 1. विश्राम गृह 2. गोल स्कूल 3. कन्या शाला स्कूल
 दक्षिण :- 1. महावीर मार्ग 2. वार्ड 9 की सीमा
 पश्चिम :- 1. झण्डा चौक 2. डॉ. के.आर. पाटीदार निवास तक

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	तहसील रोड़ - पिरुलालजी मांदलिया के मकान में पुराना बस स्टेण्ड, कमलचन्द्र, भेरुलालजी के मकान से होते हुये ब्रदीलाल कुमावत के मकान तक	839 से 895 तक
2.	चौदमलजी जैन के मकान से पोस्ट आफिस के पिछे होते हुये हिरालाल सोनी के मकान से होते हुए बालूराम धोबी के मकान से होते हुये सागरमलजी जैन के मकान तक।	896 से 920 तक
3.	विमलचन्द्रजी जैन के मकान से पिरुसेठ डपकरा के मकान से होते हुए आड़ा बाजार शिवनारायणजी डपकरा के मकान तक	921 से 955 तक

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कुतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओ की सीमाए एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 09 - महावीर वार्ड

- उत्तर :- 1. वार्ड क्रं. 8 की सीमा 2. तहसील रोड़
 पूर्व :- 1. कन्या शाला स्कूल 2. विश्राम गृह 3. वार्ड 15 की सीमा
 दक्षिण :- 1. मुस्लिम मस्जिद 2. गुरुद्वारा 3. वार्ड क्रं. 11 व 12 की सीमा
 पश्चिम :- 1. झण्डा चौक 2. धानखेड़ी

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	सुरजमल जी जैन आड़ा बाजार से छोटुलालजी के मकान धानमण्डी से होते हुए शिवनारायण हीरालाल के मकान तक।	956 से 992 तक
2.	श्यामसिंह चन्द्रसिंह जी लखवा वाले के मकान से डिपी चौराहा होते हुए मदनलाल जी जैन धान मण्डी तक	993 से 1003 तक

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कूतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएं एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-
वार्ड क्रमांक 10 - टोडरमल वार्ड

- उत्तर :- 1. नगर पंचायत भवन 2. झण्डा चौक
पूर्व :- 1. धानमण्डी 2. वार्ड 9, 11, 12 की सीमा
दक्षिण :- 1. हनुमान मंदिर 2. महिला प्रतिमा
पश्चिम :- 1. पश्चिमी-मध्य भवन 2. झण्डा चौक

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्र.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	कलावति पिता बट्टीलालजी के मकान से होते हुए अजयपुर मेडीकल से होते हुए पंचायत गली को लेते हुए हास्पिटल रोड़ को लेते हुए हेमन्त कुमार मोहन जी के मकान तक।	1064 से 1124 तक
2.	शांतीबाई बाबुलाल जी के मकान से बंगला वाले रमेश व्यास को लेते हुए 52 क्वाटर होते हुए भंवरलाल जी के मकान तक	1126 से 1172 तक

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कूतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएं एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-
वार्ड क्रमांक 11 - लालबहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर :- वार्ड 10 व 09 की सीमा
पूर्व :- कबीर मंदिर, वार्ड 12 की सीमा
दक्षिण :- मार्केटिंग सोसायटी सरस्वती सेमेनरी स्कूल
पश्चिम :- टोडरमल मार्ग, 52 क्वाटर

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्र.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	रमेशचन्द्र आईलमील से होते हुए जितेन्द्रसिंह के मकान तक पोरवाल धर्मशाला जितेन्द्रजी के मकान तक हास्पिटल रोड़ होते हुए।	1173 से 1189 तक
2.	रमेश मांगीलाल के मकान से विनोद पुरनमलजी के मकान को लेते हुए कांतिलाल भेरुलाल के मकान तक।	1203 से 1217 तक
3.	बच्चों खानेके सामने रिषभ कुमार के मकान से मोहनलालजी गिरी के मकान को लेते हुए मनोहरलाल पाटीदार के मकान तक।	1220 से 1233 तक
4.	बापुलालजी सुवासरागांव वाले के मकान से मोहनलालजी के मकान को लेते हुए प्रभुलाल धोबी के मकान को लेते हुए शरणसिंह के मकान को लेते हुए खदीम मोहम्मद से प्रभुलाल खटीक के मकान तक।	1234 से 1259 तक

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कृतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएँ एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 12 - भगतसिंह वार्ड

उत्तर :- वार्ड 9 की सीमा, कबीर मंदिर

पूर्व :- वार्ड 13 की सीमा

दक्षिण :- राजीव गांधी नगर, यावलकर भूमि

पश्चिम :- पुलिस थाना, वार्ड 12 की सीमा

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	फातमा फकीर मोहम्मद के मकान से कुददुस भाई के मकान से होते हुए वरदीचन्द्र रामप्रसाद के मकान तक।	1261 से 1278 तक
2.	फकीरचन्द्र दुलीचन्द्र अशोक के मकान से होते हुए भरत भूषण के मकान से होते हुए ओमप्रकाश गोविन्दराम के मकान तक।	1281 से 1302 तक
3.	शिवनारायण कन्हैयालाल से गनिमोहम्मद रहमान खॉ तक।	1303 से 1309 तक
4.	गुलाम मोईनुद्दीन पिता जियाउद्दीन के मकान से होते हुए जीवन दयाराम के मकान तक।	1311 से 1344 तक
5.	मीराबाई जीतमल के मकान से राकेश बद्रीलाल तक।	1345 से 1345 तक
6.	नसीमउद्दीन अजीजउद्दीन के मकान से होते हुए शम्भुलाल	1346 से 1382 तक
7.	राधाकिशन के मकान से होते हुए शांतिलाल मोतीलाल के मकान से बाबुलाल गंगाराम के मकान तक	1383 से 1403 तक

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कृतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएँ एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 13 - अम्बेडकर वार्ड

उत्तर :- महावीर मार्ग

पूर्व :- कन्या हाई स्कूल, तरनोद रोड़

दक्षिण :- वार्ड 14 की सीमा

पश्चिम :- वार्ड 9 व 12 की सीमा

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	हाफिज मो. इमाम मो. अय्युब के मकान व शांतिलाल सौनी के मकान से होते हुए कन्हैयालाल रामलाल के मकान तक।	1404 से 1334 तक
2.	बल्लभ प्रसाद शंकरलाल के मकान से रणजीतसिंह के मकान से होते हुए विडीयोगली से असरफ के मकान से होते हुए सरदार पुरा जी के मकान से कुमार मोहल्ला में होते हुए दोनो गली रतन नाथु जी के मकान तक।	1439 से 1502 तक
3.	जाफर भाई बाबुखॉ के मकान से अमजद खॉ मोहम्मद हुसैन के मकान से होते हुए निचली बरती सुरेश के मकान तक।	1503 से 1514 तक।

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कृतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएं एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 14 - स्वामी विवेकानन्द वार्ड

उत्तर :- विश्रामगृह, वार्ड 13 की सीमा

पूर्व :- दादावाड़ी, चन्दन कॉलोनी

दक्षिण :- शिशु मंदिर, आरा मशीन

पश्चिम :- राजीव गांधी नगर, वार्ड 9 व 12 की सीमा

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	कमलाबाई पिता रामसिंह के मकान से बागरी मो. होते हुवे निछली बस्ती से होते हुवे नरसिंह तेजमल के मकान से होते हुए बागरी मोहल्ले में होते हुए राधेश्याम हरदेव जी के मकान तक।	1518 से 1560 तक
2.	केशरबाई पुरालाल जी के मकान से दोनो गली सदाशिव जी शर्मा के मकान	1562 से 1567 तक
3.	आशाराम भग्गाजी के मकान से होते हुवे भुर्जनलालजी पटवारी के मकान तक	1569 से 1579 तक
4.	घीसीबाई गंगाराम के मकान से शिक्षक कालोनी दोनो साईट की गली तरनोद रोड़ की गली चन्द्रमलजी की गली में होते हुवे रेस्ट हाउस की गली से होते हुए हंसराज भंवरलालजी के मकान तक।	1580 से 1612 तक

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
01.	श्रीराम वार्ड	02.	कालेश्वर वार्ड
03.	मारुती वार्ड	04.	कृतबी वार्ड
05.	सुभाष वार्ड	06.	रामदेव वार्ड
07.	वाल्मिक वार्ड	08.	महात्मा गांधी वार्ड
09.	महावीर वार्ड	10.	टोडरमल वार्ड
11.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
13.	अम्बेडकर वार्ड	14.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
15.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं की सीमाएं एवं वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

वार्ड क्रमांक 15 - चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर :- वार्ड 7 की सीमा, उत्कृष्ट विद्यालय, रुनीजा रोड़

पूर्व :- कृषि एवं शासकीय भूमियां

दक्षिण :- दादावाड़ी, तरनोद रोड़, कृषि भूमि

पश्चिम :- वार्ड 13 व 14 की सीमा, दादावाड़ी

इस वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र निम्नानुसार है।

क्रं.	मोहल्ला	मकान नं. से मकान नं.
1.	धर्मेन्द्र चांदमल के मकान से होते हुए दादावाड़ी के सामने से पिछे की गली दोनो साईड फिर तरनोद रोड़ कि दोनो गली दादावाड़ी के पास वाली गली।	1615 से 1619 तक
2.	बालु हिरा के मकान से नई आबादी कि दोनो गली।	1620 से 1712 तक
3.	इन्द्रा आवास कुटीर के बाद प्रभुलाल ती तिवारी वाली दोनो गली गणेशमगरा वाली लाईन मोहनलाल नाथु गाडोलिया की झोपड़ीयों से होते हुवे हाई स्कैण्ड्री स्कूल होते हुवे फिर नया नाम जोड़े गये।	1713 से 1719 तक

जी. के. सारस्वत, कलेक्टर.

Mandsaur, the 6th April 2010

No. 506 / S.C. - 1/vq.v1 - N.P./Suwasra/ 2010 M.P. Nagar Plika Act 1961 Section 345 use of the power given by the state government M.P. Nagar Palica act 1961 section 29 and M.P. Nagriya Prashashan and Ministry of development department Bhopal. Notification No509 Bhopal date 5-octumbe 2007 by the district collector Mandsaur order No. 1264 /1265 Duda under the power desslute from Gram Panchayat Suwasra.

I Dr. G.K. Saraswat collector District Mandsaur used the power of section 29(1) given By the state Government issue all the notification presiouly presided M.P.

Government Nagriya Prashashan and ministry of development department Bhopal Notification No. 25-F No. 1-39/98/ 18 Bhopal. Date 23-10-2009 by act section 5 (kh) Gram Panchayat Suwasra of Mandsaur district the direction area Nagar Panchayat Notified given bilow in table column No. 2 directed Nagar Panchayat Suwasra District Mandsaur related in the table in column No. 3 Divide the ward.

Ward no	Ward Name	Ward no	Ward Name
1.	ShreeRam Ward	2.	Kaleshwar Ward
3.	Maruti Ward	4.	Kutubi Ward
5.	Subhash Ward	6.	Ramdev Ward
7.	Valmiki Ward	8.	Mahatma gandhi Ward
9.	Mahaveer Ward	10.	Todermal Ward
11.	Lal Bahadur Shastri Ward	12.	Bhagat singh Ward
13.	Ambedker Ward	14.	Swami Vivekanand Ward
15.	Chandra Shekhar Azad Ward		

Each ward all direction area and ward including area are following types

Ward no 01 :- Shreeram ward fourth Area

North :- Government Field

East :- Area of Ward no 01

South :- (1) Road of Devriavijay

:- (2) Farm Area

West :- Road og Devriavijay

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	From Raesabai house to the Jorawarsingh house	01 To 07
2.	From Ramesh house to the Bapusingh house	08 To 11
3.	From Kachrusingh house to the Dulesingh house	15 To 19
4-	From Mohanlal maharaj house to fatelal house to take to the Bhagubai Puralalji house	20 To 135

Ward no 02 - Kaleshwar Ward

North :- Farm Area

East :- (1) Gangadhar Road

:- (2) Mela Ground

South :- Road of Devriavijay

West :- Area of Ward no 01

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	From Karual Nathulal house to Noormahamad House to take total Bagri Mohalla to the take New population og Bheru Giri house	136 To 227
2.	Railway colony From Prakashchandra house to total railway colony to take Old bus stand Suwasara to the Omprakash ramvilas house	228 To 270

Ward no 03 - Maruti Ward

North :- 1. Aaramachine 2. Guradia PratapVillage Area

East :- 1. Meena Mohalla 2. Bohara Majjid

South :- Area of Ward no 08

West :- Mandsour road

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Old bus stand From Radheshyam Kala house to the Mohanlal tamboli house	271 To 287
2.	Maruti nagar From Radheshyam Malviya house to the Kashiram house to take Shivrinarayan Kala house	281 To 314
3.	Burhani complex From Laxmi narayan Madanlal house to the Radheshyam Soni to take Fulchand Bhawarlal patidar house	318 To 356

Ward no 04 - Kutubii Ward

North :- Meena Mohalla

East :- Bohra Bakhhal Area of Ward no 05

South :- Tehdil Road 02 Area of Ward no 08

West :- Zenning Factory 02 Area of Ward no 03

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Bohra bakhhal - Tehsil Road Zennuddin Zeenwala house to the hakkimuddin Choudary to take Zamat khana Near of New Population	357 To 380
2.	house	381 To 392
3.	Shabbir Hussain Musarik house to take abbas Bhai house to take Front of Sephia school	393 To 406
4.	Baddruddin house to Kutubi Mohalla to take Shabbir Hussain house to take Akbar Bhai house	406 To 418
5.	Seffuddin housed to Bakeerbahi house to take taber bhai house	420 To 430
6.	Alihussain house to Shekh Yusuf Ali house	431 To 451
	Mu. Taber Ali house to the Seffuddin house Tehsil Road	

Ward no 05 - Subhash Ward

North :- Gafur colony, Banjara Mohalla

South :- Runija Road 2 Tehsildar house

East :- Tehsil Road 2 Area of ward 08

West :- Area of ward no 4

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Iqbal Bhai house to Kanya Shala to take the Banshilal Pradhan house	452 To 497
2.	Suresh Kumar Mahajan house to Parvatibai Ramful house to take Mohansingh Kalia house	498 To 540
3.	Bansilaji Nai house to Laxmansingh house	540 To 546
4.	Karu Kishan house to bherulal Jain house to take the Mohanlal Hirake	548 To 568

Ward No 06 - Ramdev Ward

North :- 1. Bohra Kabristan 2. Itt Bhatta

East :- Valmiki Colony

South :- 1. Zamat Khana 2. Sofiyaha School 3. Balaganj Mohalla

West :- 1. Maruti Nagar 2. Burhani Complex

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Banjara Mohalla- Kumar mohalla, Kalu Jassa house to Gangaram House to take the Kumar Mohalla in Ramchandra house to take the Banjara mohalla 2 side to take Shaphi Bhai Maqbul house	569 To 663
2.	Meena Mohalla- Manbai Failigee Meena house to Tarabai house to take The Mohanlal house	664 To 697
3.	Tulsiram house to Lilabai house	697 To 700
4.	Begambee house to Ambaram house	701 To 727
5.	Kalavati Bai house to Shivnarayan Sharma house to take the Kanchanbai	728 To 761

Ward No 07- Valmiki Ward

North :- 1. Runija Road 2. Valmiki Colony 3. Gayatri Mandir

East :- 1. Muslim Kabristan 2. Idgah 3. Kawaral Mistri Farm

South :- 1. Reliance Tower 2. Area of Ward No 15

West :- 1. Tehsil Road 2. Peerulal Mandlia house 3. Gol School 4. LSS building 5. Area of Ward No 5 and 8

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Valmiki Mohalla - Kishorlal house to Shivalal Jassa House to take the Khadim Bhai house to take the Chotulal house	762 To 781
2.	Badri Uda house to Ratan Banjara house	783 To 788
3.	Gayatri Mandir to Jamnadas Bairagi house to Radheshyam house to Take the Rambilas house	788 To 793
4.	Ramgopal Hostel to Rajendra Kumar Hostel in Ramchandra Tehsil	793 To 801
5.	Tehsil Road Raees Bhai State house to Gadolia Luhar ,Devendra Ramchandra Pandey house	803 To 806
6.	Mangilal Babalda house to Bhawarlalji Sutar house to take the Tafjful Sefi Coldrinks house	807 To 838

Ward No 08- Mahatma Gandhi Ward

North :- 1.Tehsil Road 2.Arae of ward no 7

East :- 1.Rest house 2.Gol school 3. Kanya Shala School

South :- 1.Mahaveer Marg 2.Area of ward no 9

West :- 1.Flag Chowk 2.Dr K.R.Patidar house

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Tehsil Road –Peerulalji mandlia house to old Bus Stand,Kamalchand Bherulalji house to take the Badrilal Kumavat house	839 To 895
2.	Chandmalji Jain house to Opp. Post Office to Hiralal Soni house to Baluram Dhobi house to the take Sagarmalji Jain house	896 To 920
3.	Vimalchandji Jain house to Piru seth Dapkara house to take the Aada Bazar Shivnarayan Dapkara house	921 To 955

Ward No 09- Mahaveer ward

North :- 1.Area of ward no 8 2. Tehsil Road

East :- 1.Kanya Shala School 2.Rest house 3.Area of ward no 15

South :- 1.Muslim Masjid 2.Gurudwara 3.Area of ward no 15

West :- 1.Flag Chowk 2.Dhankhedhi

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Surajmal Jain Aada Bazar to Chotulalji house Dhanmandi to take the Shivnarayan Heeralal house	956 To 992
2.	Shyamsingh Chandersingh Lakhwa house to DP Chowraha take to the Dr. Madanlal Jain house dhanmandi	993 To 1063

Ward No 10 - Todermal Ward

North :-1.Nagar Panchayat Building 2.Flag Chowk

East :-1.Dhanmandi 2.Area of ward no 9,11,12

South :-1.Hanuman Mandir 2.Ladies Statue

West :-1.West –Center Building 2.Flag Chowk

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Kalawati Father Badrilal house to Ajaypur Medical to Panchayat Gali to Take the Hospital Road to take the Hemant Kumar Mahanji house	1064 To 1124
2.	Shantibai Babulalji house to Ramesh Vyas to take the 52 Quarter Bhawarlal	1126 To 1172

Ward No 11 - Lal Bahadur Shastri Ward

North :- Area of ward no 10 and 9

East :- Kabir Mandir , Area of ward no 12

South :- Marketing Society Saraswati Seminary School

West :- Todermal Marg, 52 Quater

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Rameshchandra Oil mill to Jitendra singh house to Porwal Dharmshala Jitendraji house to the Hospital Road	1173 To 1189
2.	Ramesh Mangilal house to Vinod Puranmalji house take to the Manoharlal Patidar house	1203 To 1217
3.	Child Khana Front of Rishabh Kumar house to Mohanlalji Giri house take to The Manoharlal Patidar house	1220 To 1233
4.	Babulalji Suwasara Village house to Prabhulal Dhobi house take to the Sharansingh house to take the Khadim Mohammad to Prabhulal Khatik house	1234 To 1259

Ward No 12 - Bhagat Singh Ward

North :- Area of ward no 9, Kabir Mandir

East :- Area of ward no 13

South :- Rajiv Gandhi Nagar , Yavalkar farm

West :- Police Thana , Area of ward no 12

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Fatma fakeer Mohammad house to Kuddus Bhaihouse take to the Vardichand Ramprasad house	1261 To 1278
2.	Fakeerchand Dulichand Ashok house to bharat Bhushan house take to the Omprakash Govindram house	1281 To 1302
3.	Shivnarayan Kanhayalal to Gani Mohammad Rehman Kha Jivan Dayaram house	1303 To 1309
4.	Gulam Moinudin Father Jiyauddin house take to the Jivan Dayaram house	1311 To 1344
5.	MeeraBai Jeetmal house to rakesh Badrilal house	1345 To 1345
6.	Nassimuddin Azizuddin house take to the Shambhulal house	1346 To 1382
7.	Radhakishan house to Shantilal Motilal house to babulal gangarm house	1383 To 1403

Ward No 13 - Ambedkar Ward

North :- Mahaveer Marg

East :- Kanya High School, Ternod Road

South :- Area of ward no 14

West :- Area of ward no 9 and 12

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Hafiz Mohammad imam Mo.Ayyub house and Shantilal Soni house take to The Kanhayalal Ramlal house	1404 To 1334
2.	Vallabh Prasad Shankarlal House to Ranjitsingh house take to Video Gali To Asraf house take the Sardar Pura house to kumar Mohalla to twice Gali To Ratan Nathu house	1439 To 1502
3.	Jafer Bhai Babu Kha house to Amjad Kha Mohammad Hussain house to Nichali Basti Suresh house	1503 To 1514

Ward No 14 – Swami Vivekanad Ward

North :- Rest house, Area of ward no 13

East :- Dadawadi, Chandan Colony

South :- Shishu Mandir, Aara Machine

West :- Rajeev Gandhi Nagar, Area of ward no 9 and 12

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Kamlabai Father Ramsingh house to bagri Mohalla to Nichali Basti to Narsingh Tejmal house to bagri Mohalla take to the Radheshyam Hardev house	1518 To 1560
2.	Kesharbai Puralalji house to twice Sadashivji Sharma house	1562 To 1567
3.	Aasharam Baggaji house to Arjunlalji Patwari house	1569 To 1579
4.	Gheesi Bai Gangaram house to Teacher Colony twice gali Ternod road Gali of Chandarmal take to the Rest house to Hansraj Bhawarlal house	1580 to 1612

Ward No 15 – Chandra Shekhar Azad Ward

North :- Area of ward no 7, Utkrastha school ,Runija road

East :- Farm and Government area

South :- Dadawadi, Ternod road, Farm

West :- Area of ward no 13 and 14, Dadawadi

Area including are following types

S.No	Mohalla	House no to House no
1.	Dharmendra Chandmal house to front of Dadawadi Back side twice gali to ternod road Near of Dadawadi gali	1615 To 1619
2.	Balu Hira house to gali of New Poulation	1620 To 1712
3.	Indra Awas Kuteer after of Prabhulal Tiwari gali Ganeshmagra line Mohanlal Nathu Gadolia Basti take to the High Secondary School After new name including	1713 To 1719

G. K. SARASWAT, Collector.